

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं० 18] नई दिल्ली, सितम्बर 9—सितम्बर 15, 2007, शनिवार/भाद्र 18—भाद्र 24, 1929
No. 18] NEW DELHI, SEPTEMBER 9—SEPTEMBER 15, 2007, SATURDAY/BHADRA 18—BHADRA 24, 1929

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पुष्क संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2007

आ. अ. 46.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग एतद्वारा निर्वाचन अर्जी संख्या सं. 2/2004 में दिया गया पटना उच्च न्यायालय के तारीख 16-4-2007 का आदेश को प्रकाशित करता है।

(आदेश इस अधिसूचना के अंग्रेजी भाग में छपा है।)

[सं. 82/बिहार/(2/2004)/2007]

आदेश से,

आर. के. श्रीवास्तव, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 10th September, 2007

O. N. 46.—In pursuance of Section 106 of the Representation of the people Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby publishes order dated the 16th April, 2007 of the High Court of Judicature at Patna in Election Petition No. 2 of 2004.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

E. P. No. 02 of 2004

Om Prakash Yadav Vrs. Mohamad Shahabuddin and Ors.

23/16-04-07

It appears from persual of the order sheet that since 7-2-2007 no step is being taken on behalf of the petitioner, on 7-2-2007, no step was taken by the petitioner. On 15-2-2007 as prayed for on behalf of the petitioner, three weeks' time was

granted. Thereafter on 14-3-2007 as prayed for three weeks' time was granted. On 5-4-2007 against last chance was given, but no step was taken by the petitioner. Petitioner was to argue only on point of law.

This application is dismissed for non-prosecution.

(Sadanand Mukherjee, J.)

[No. 82/BR(2/2004)/2007]

By Order,

R. K. SRIVASTAVA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2007

आ. अ. 47.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि केरल विधानसभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2006 जो नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्रों से हुआ है, स्तम्भ (3) में उसके नाम के सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;

और यतः उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा नीचे की सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् की सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है ।

सारणी

क्रम सं.	विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र की क्रम सं. और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरहता का कारण
1	2	3	4
1.	5-त्रिकारिपुर	बालकृष्णन् यू. पुत्र श्री नारायणी, कार्तिका वीडु उप्पिलिकाइ, नीलेश्वर केरल	कोई भी लेखा दाखिल नहीं किया।
2.	-वही-	थम्बन, ए. के. सुपुत्र कण्णन्, थय्येनि पलवायल, केरल	-वही-
3.	61-चालाकुडी	एडवोकेट, टी. के. मनोज, थेक्केदत्त हाउस, कथिक्कुडम, केरल	-वही-
4.	-वही-	के. जी. सुन्दरन, कोन्नथ अयिल्लयम्, पोटा पो. ऑ. केरल	-वही-
5.	63-इरिन्जावाकुडा	पी. जी. अनिलकुमार, पुथनपुरा वीडु, पो. ओ. करलम, केरल	-वही-
6.	-वही-	पी. के. सुब्रमण्यम्, परम्बथ वीडु, नादवरम्बु पो. आ. केरल	-वही-
7.	-वही-	सी. के. चन्द्रन, चेन्नगठ वीडु, करलम पो. आ. केरल	-वही-
8.	-वही-	ए. ए. थोमस, चेन्तुन्गा अलुक्कावीडु पो. आ. इरिन्गलकुडा, केरल	-वही-
9.	-वही-	पी. एन. सुरन, परम्बथ वीडु, नादवरम्बु पो. आ. केरल	-वही-

1	2	3	4
10.	64-मानालूर	बाबू एलवल्लि कुन्नुवल्लि हाउस, पो. आ. ग्लावल्लि (एस) त्रिस्सूर-680511, केरल	कोई भी लेखा दाखिल नहीं किया।
11.	65-गुरुवायूर	पी. एम. गोपीनाथन पेराकथ हाउस, अलम्पाडि, चायक्काड-पो.आ. केरल	-वही-
12.	83-देवीकोलम (अ.जा.)	आर. कन्निराज, 5/639, पम्बनपरा पिआस नगर, कन्थल्लूर, केरल	-वही-
13.	-वही-	जी. सौन्दरा राजन, नेल्लइ हाउस, थेक्काडि, पीरमोड, तालुक, केरल	-वही-
14.	-वही-	एस. राजेन्द्रन-2 मं. सं. 03/314, न्यू डिवीजन, पेसिकनल एस्टेट, चिन्नकनल पो. आ. केरल	-वही-
15.	114-पथनापुरम	विलक्कुडि चन्द्रन तुलसी भवनम्, विलक्कुडि- पो.आ. केरल	-वही-
16.	-वही-	अनीश एन्थनी राजभवन, कडक्कमोन, नडुक्कुण्णु, पो.आ.-पथनापुरम, केरल	-वही-
17.	-वही-	एस. कृष्णनकुट्टि पनरजिकथु वीडु, नीलेश्वरम्, पो.आ. कोट्टरक्करा, केरल	-वही-
18.	-वही-	मदप्परा मुरलीधरन, मदप्परा चारुविला वीडु, एलम्पल, पो. आ. पुनालूर, केरल	-वही-
19.	115-पुनालूर	थू थोल्लूर राजगोपालन, चबुविला वीडु, थोल्लूरय, एडामुलक्कल, केरल	-वही-
20.	-वही-	मदप्परा मुरलीधरन, मदप्परा चारुविला वीडु, एलम्पल, पो. अ. पुनालूर, केरल	-वही-
21.	-वही-	सन्तोष एस. देवाभवन, एदमुलक्कल, पो. आ. आंचल, केरल	-वही-
22.	116-चाडायामंगलम	येरुर अनिल अम्पाडियिल येरुर, येरुर पो. आ. केरल	-वही-
23.	-वही-	जोस सारनथ, परायिल किजक्केथिल वीडु चन्ननपेट्टा पो. आ. केरल	-वही-
24.	117-कोट्टरक्करा	एडवो. एन. चन्द्रमोहनन्, किजक्केकारा पुथेनवीडु, पल्लिक्कल, पो. आ. कोट्टरक्करा, केरल	-वही-
25.	-वही-	बीजु, बीजु भवनम्, एजुकोने पो.आ. कोल्लम, केरल	-वही-
26.	-वही-	सी. डी. मैथ्यू, कोईपुरथु हाउस, टी.सी. 2/405/1 उल्लूर, मेडिकल कॉलेज, पो. आ. केरल	-वही-

1	2	3	4
27.	121-करुनागापल्ली	अनिल वजप्पल्ली, एस. के. निवास. (वजप्पल्ली), करुनागापल्ली, वव्वक्कावु पो. आ. केरल	कोई भी लेखा दाखिल नहीं किया।
28.	122-चवारा	जयकुमार पनयिल वीडु, पेरुम्पुजा पो. आ. कुन्दरा, कोल्लम, केरल	-वही-
29.	123-कुन्दरा	दिलीप कुमार एस. पार्वती भवनम्, कुरीपुजा (पो. आ.), पेरिनाडु, कोल्लम, केरल	-वही-
30.	-वही-	जौनसन कल्लदा निरुप्पथु विला, पुथेन वीडु कोडुविला (पो. आ.), कोल्लम, केरल	-वही-
31.	-वही-	बेबी, कलामदनतथ्याथु, प्रक्कुलम (पो. आ.), कोल्लम, केरल	-वही-
32.	-वही-	शिवदासन, जयति कॉलोनी, प्लॉट नं. 8, पम्पल्लि, पेरिनाडु, कोल्लम, केरल	-वही-
33.	124-कोल्लम	सी. थम्पि, लक्ष्मी मंदिरम्, वडक्केविला, कन्जनगाड, कोल्लम, केरल	-वही-
34.	125-एरावीपुरम्	एडवोकेट, जी. गोपाकुमार, थजेदुलनगरा वृन्दावन, चेरिकोनन, कण्णनस्तूर, पो. आ. केरल	-वही-
35.	-वही-	सी. के. रेमनन, ज्यंती कॉलोनी, मुण्डकल, पेरुम्पुजा, पो. आ. केरल	-वही-
36.	126-चयानूर	श्रीमती सुषमा विजयन थेन्गुविला वीडु, वन्दाचिरा मुक्कु, कोट्टियम्, केरल	-वही-

[सं. 76/केरल-विधान सभा/2007]

आदेश स.

तपस कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th September, 2007

O.N. 47.— Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (3) of the Table below at the General Election to the Kerala Legislative Assembly, 2006 held from the Constituency specified in the column (2) against his/her name has failed to lodge an account of his/her election expenses as mentioned in column (4) of the said Table, as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules, made thereunder:

And, whereas the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failures even after due notice to each of them and the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (3) of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being, a member of either House of the Parliament or Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of 3 years from the date of this Order.

TABLE

Sl. No.	No. and Name of Assembly Constituency	Name and Address of the contesting Candidate	Reason for disqualification
1	2	3	4
1.	5-Trikaripur	Balakrishnan, U. S/o Narayani, Karthika Veedu Uppilikai, Nilésvar, Kerala	Accounts not lodged at all.
2.	-do-	Thamban, A. K. S/o Kannan, Thayyeni, Palavayal, Kerala	-do-
3.	61-Chalakudy	Adv. T. K. Manoj Thekkedath House, Kathikkudam, Kerala	-do-
4.	-do-	K. G. Sundaran, Konnath Ayillyam, Potta, P. O. Kerala	-do-
5.	63-Irinjalakuda	P. G. Anilkumar Puthanpura Veedu, P.O. Karalam, Kerala	-do-
6.	-do-	P. K. Subrahmanyam Parambath Veedu, Nadavarambu P.O. Kerala	-do-
7.	-do-	C. K. Chandran Chendangath Veedu, Karalam P. O. Kerala	-do-
8.	-do-	A. A. Thomas Chettunga Alukka Veddu, P.O. Iringalakuda, Kerala	-do-
9.	-do-	P. N. Suran Parambath Veedu, Nadavarambu P. O. Kerala	-do-
10.	64-Manalur	Babu Elavally Kunnathully House, P.O. Glavally(s) Thrissur-680511, Kerala	-do-
11.	65-Guruvayur	P. M. Gopinathan Perakath House, Alumpady Chavakkad P.O. Kerala	-do-
12.	83-Devikulam (SC)	R. Kanniraj, 5/639, Pambanpara, Pias Nagar, Kanthalloor, Kerala	-do-
13.	-do-	G. Soundara Rajan, Nellai House, Thekkady, Peermade Taluk, Kerala	-do-
14.	-do-	S.Rajendran-2 H. No. 03/314, New Division, Periyakanal Estate, Chinnakanal P.O. Kerala	-do-

1	2	3	4
15.	114-Pathanapuram	Vilakkudy Chandran Thulasi Bhavanam, Vilakkudy, P. O., Kerala	Accounts not lodged at all
16.	-do-	Anish Antony, Raj Bhavan, Kadakkamon, Nadukkunnu, P.O. Pathanapuram, Kerala	-do-
17.	-do-	S. Krishnankutty, Panarazhikathu Veedu, Neeleswaram, P. O. Kottarakkara, Kerala	-do-
18.	-do-	Madappara Muraleedharan, Madappara Charuvila Veedu, Elampal, P.O. Punalur, Kerala	-do-
19.	115-Punalur	Tholloor Rajagopalan, Chabuvila Veedu, Tholloor, Edamulakkal, Kerala	-do-
20.	-do-	Madappara Muraleedharan, Madappara Charuvila Veedu, Elampal, P. O. Punalur, Kerala	-do-
21.	-do-	Santhosh, S. Devabhavan, Edamulakkal P.O. Anchal, Kerala	-do-
22.	116-Chadayamangalam	Yeroor Anil, Ampadiyil, Yeroor, Yeroor, P.O. Kerala	-do-
23.	-do-	Jose 'Saranath Parayil Kizhakkethil Veedu, Channappetta, P.O., Kerala	-do-
24.	117-Kottarakkara	Adv. N. Chandramohanam, Kizhakkekara Puthenveedu, Pallickal P.O. Kottarakkara, Kerala	-do-
25.	-do-	Biju, Biju Bhavanam, Ezhukone P.O. Kollam.	-do-
26.	-do-	C. D. Mathew, Koipurathu House, T.C. 2/405/1 Ulloor, Medical College P.O., Kerala	-do-
27.	121-Karunagappally	Anil Vazhappally, S.K. Nivas, (Vazhappallil), Karunagappally, Vavvakkavu P.O. Kerala	-do-
28.	122-Chavara	Jayakumar Panayil Veedu, Perumpuzha P.O. Kundara, Kollam, Kerala	-do-
29.	123-Kundara	Dileep Kumar S. Parvathy Bhavanam, Kureepuzha (P.O.) Perinadu, Kollam, Kerala	-do-

1	2	3	4
30.	123-Kundara	Johnson Kallada, Nirappathu vila, Puthen Veedu, Koduvila (P.O.) Kollam, Kerala	Accounts not lodged at all
31.	-do-	Baby, Kalamadantayyathu, Prakkulam (P.O.), Kollam, Kerala	-do-
32.	-do-	Shivadasan, Jayanthi Colony, Plot No. 8, Pampalli, Perinadu, Kollam, Kerala	-do-
33.	124-Kollam	C. Thampi, Lakshmi Mandiram, Vadakkevila, Kanjangad, Kollam, Kerala	-do-
34.	125-Eravipuram	Adv. G. Gopa Kumar, Thazhekulangara Vrindavan, Cherikonan, Kannanalloor P.O., Kerala	-do-
35.	-do-	C. K. Remanan, Jayanthi Colony, Mundakal, Perumpuzha P.O., Kerala	-do-
36.	126-Chathanoor	Smt. Sushama Vijayan, Thenguvila Veedu, Kandachira Mukku, Kottiyam, Kerala	-do-

[No. 76/KL-LA/2007]

By Order,

TAPAS KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2007

आ. अ. 48.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि तमिलनाडु विधानसभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2006 जो नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्रों से हुआ है, स्तम्भ (3) में उसके नाम के सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और यतः उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा नीचे की सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

सारणी

क्रम सं.	विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र की क्रम सं. और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता का कारण
1	2	3	4
1.	56-वानुर (अ.जा.) सं. 68/5,	ए. गोविन्दसामि, पेरुनल कोइल स्ट्रीट गीतानाल-2, तिन्डिवनम-604002	कोई लेखा दाखिल नहीं किया।
2.	-वही-	परमसिवम, डी. सं-20, थलयारि स्ट्रीट, (डरुवन स्ट्रीट), वीडुर ग्राम और पोस्ट, तिन्डिवनम तालुक, पिनकोड-605652	-वही-

1	2	3	4
3. 56	मानुर (अ.जा.)	जयपाल एम., सं. 2, अन्ना स्ट्रीट, कोनमंगलम ग्राम, धनुथलि पोस्ट, तिन्डिवनम तालुक पिनकोड-604304	कोई लेखा दाखिल नहीं किया।
4. 79	हरूर (अ.जा.)	अम्बेडकर पी., सुपुत्र एन. आर. पेरूमल, मोबिरिपट्टि ग्राम, हरूर तालुक, धर्मपुरी जिला	-वही-
5.	-वही-	क्लइमणि वी. सुपुत्र वेदिअप्पन, डो. न. 13, वार्ड नं. 16, अम्बेडकर नगर, हरूर टाउन, हरूर तालुक, धर्मपुरी जिला	-वही-
6.	-वही-	तिरुमल एम. सुपुत्र मरिअप्पन, एम.जी.आर. नगर, कुमारसामिपेट पो.ओ. धर्मपुरी तालुक धर्मपुरी, जिला	-वही-
7. 136	-सेडापट्टी	सान्थाकुमार के. सुपुत्र करुपैया, महाकवि, भारती इलम, थाडायामपट्टी, पेरडयूर तालुक, मदुरई जिला	-वही-
8.	-वही-	रामदुरई पी. सुपुत्र पिन्ना धेवर, 8-1-51, सुब्रामण्यम सिवा स्ट्रीट, पलनिचेट्टिपट्टि, धेनि तालुक, धेनि जिला	-वही-
9.	-वही-	सुन्दरमूर्ति वी. सुपुत्र वेल्लइचामि, नाडु थेरु, द्वितीय वार्ड, एस. कीलापट्टी सान्तइयूर (पो.ओ.) पेराइयूर तालुक, मदुरई जिला	-वही-
10.	-वही-	वासिमलई पी. सुपुत्र पेच्चिमुत्तु, वी.ओ.सी. नगर, पेरडयूर, पेरडयूर, मदुरई जिला	-वही-
11. 137	-तिरुमंगलम	गुरुसामि, पी. सुपुत्र पेरियमारुथन, 123, वेप्पनकुलम, मारुथनगुडि पो. ओ., तिरुमंगलम तालुक, मदुरई जिला	-वही-
12.	-वही-	मुथुवेल, के. सुपुत्र कृष्णन्, 35ए, ओ. अलन्कुलम, वलयपट्टि पो. ओ. मदुरई दक्षिण तालुक, मदुरई जिला	-वही-
13. 151	-अरवकुरिचि	श्री दयालन आर. एम. सुपुत्र मरियप्पन, राजापुरम (पो. आ.) अरवकुरिचि तालुक	-वही-
14. 156	-थोट्टियाम	सरस्वती जी. पत्नी श्री गणेशन 5/74, पल्लार स्ट्रीट, कोलाकुडि पोस्ट, थोट्टियाम तालुक, त्रिचि जिला	-वही-

1	2	3	4
15. 156-धोदियाम	श्री नितेश एन. सुपुत्र श्री नालू कुट्टी, 6 मेला स्ट्रीट, मंगलम-गांव, मुसीरी-तालुक		कोई लेखा दाखिल नहीं किया।
16. -वही-	उषा सी. पत्नी श्री सेल्वपति 110, अन्नानगर कॉलोनी, धोदियाम पोस्ट और तालुक		-वही-
17. -वही-	कृष्णन, आर. सुपुत्र श्री एम. रामसामि 1/56, अम्बालक्करन स्ट्रीट, कारुगुडि, मुसिरि तालुक, त्रिची जिला		-वही-
18. -वही-	सोन्थेलकुमार पी. सुपुत्र पेरियसामि 2/386, मरियम्मन कोइल स्ट्रीट, अरियनमपेट्ट, अलगरइ ग्राम, धोदियाम तालुक, त्रिची जिला		-वही-
19. 158-मुसिरी	नगालिन्गम, अरु सी. सुपुत्र चितिरन, 1/288, भारत नगर, पूलनगुडि कॉलोनी, त्रिची-25		-वही-
20. -वही-	इलनोवल्लल वी. सुपुत्र बालमुथु 14/डी धिरुवल्लुवर स्ट्रीट सिरुगमपुर मन्नाचनल्लुर तालुक		-वही-
21. -वही-	गणेशन एस. सुपुत्र सेवन्तिलिन्गम, 119, ईस्ट स्ट्रीट, मुरुगपेट्ट, मुथुरासनल्लुर पोस्ट, श्रीरन्गम तालुक		-वही-
22. 159-लालगुडी	कृष्मूर्ति वी. सुपुत्र वदगिरि, ठप्पिलियापुरम पोस्ट, धुरइयुर तालुक, त्रिची जिला		-वही-
23. -वही-	नटराज एम. सुपुत्र मुथुकरुप्पन, मुदालियार स्ट्रीट, कोवन्डकुरिचि, पुल्लम्बाडि वाया लालगुडी तालुक		-वही-
24. -वही-	राजाराम एन. सुपुत्र नटराजन, मेला स्ट्रीट, साउथ महिलम्बाडी, लालगुडी तालुक		-वही-
25. 165-श्रीरंगम	महालक्ष्मी श्रीमती एम. पत्नी जे. मुथुकृष्णन् 47/1, सिनाम इल्लम, नल्लकिनि स्ट्रीट, ईदमलइपट्टिपुडूर तिरुचिरापल्लि-620012		-वही-
26. -वही-	दलित इलयमारन © पलनिबेल, सुपुत्र मुथु 68ए, इन्ना नगर, ईदमलइपट्टिपुडूर, तिरुचिरापल्लि-620012		-वही-

1	2	3	4
27.	170-पूम्पुहर	सरस्वती, एम., पत्नी मधियाङ्गन, 7/148, पदसलई थेरु, पेरियक्कुर, तिरुक्कलाचेरि पोस्ट, थरन्मम्बाडि तालुक, नागपट्टिनम जिला	कोई भी लेखा दाखिल नहीं किया।
28.	-वही-	चक्रवर्ती के., सुपुत्र क्यालियमूर्ति, मेन रोड, वाशिष्ठचेरि, वेलमपुटुक्कुडि पोस्ट, तरन्मम्बाडि तालुक, नागपट्टिनम जिला	-वही-
29.	-वही-	वेकटेशन मारि, सुपुत्र मरिमुथु, अयानारकोइल थेरु, इलयमधुकूडम, राधानल्लूर, सिरकालि तालुक, नागपट्टिनम जिला	-वही-
30.	176-वेडाराण्यम्	उथयकुमार एम., राजनकट्टालि, अन्नपेट्टई एवं पोस्ट वेदरण्यम तालुक, नागपट्टिनम जिला	-वही-
31.	-वही-	वीरविनयगम बी., 6, कीला थेरु वेदरण्यम् एवं तालुक नागपट्टिनम जिला	-वही-
32.	-वही-	श्रीनिवासन एम., कलनि थेरु, थलनायर-पहली सेथी, वेदरण्यम तालुक, 614712, नागपट्टिनम जिला	-वही-
33.	-वही-	वेदूरेथिनम जी, नेइविल्लक्कु एवं पोस्ट वेदरण्यम तालुक, नागपट्टिनम जिला	-वही-
34.	195-कराइकुडी	रमन, एन. के., सुपुत्र नागप्पन्, न्यू डोर नं. 7/ओल्ड नं. 5, 9-स्ट्रीट, सुब्रमण्यपुरम् कराइकुडि	-वही-
35.	197-इलायंगुडी	श्रवणन, एम., सेन्नारनदई सी.के. मंगलम पोस्ट, तिरुवदनई तालुक, रामनाथपुरम जिला	-वही-
36.	-वही-	अयासामि, एस., 5/73, कुट्टुपलि, सेनगुडि पोस्ट, आर. एस. मंगलम वाया तिरुवदनई तालुक, रामनाथपुरम जिला	-वही-
37.	-वही-	भास्करन आर., स्थानि ग्राम, इलायंगुडी तालुक, शिवगंगा जिला	-वही-
38.	-वही-	मुरुगेसन, आर., वेलामिदई, मेलनुत्तर पोस्ट, इलायंगुडी तालुक, शिवगंगा जिला	-वही-

1	2	3	4
39. 198-शिवगंगा	धनलक्ष्मी श्रीमती वी., पत्नी श्री वेंकटरमन, 16बी थलइवार, चिन्नसामि स्ट्रीट, शिवगंगा		कोई भी लेखा दाखिल नहीं किया।
40. 199-मानामदुराई (अ.जा)	कमलकणन के., ठ 12/11 हाउसिंग बोर्ड, शिवगंगा		-वही-
41. 227-टुटिकोरिन	शिवमुरुगन, टी, 2/26, साउथ स्ट्रीट, थन्डापथु पोस्ट, तिरुचेन्दुर तालुक 628208		-वही-
42. -वही-	श्री जयमल अर्पुतराज, बी-68 मेला स्ट्रीट, कुलइअनकरिसल, थूतिकुडि तालुक		-वही-

[सं. 76/तमिलनाडु-विधान सभा/2007]

आदेश से,

तपस कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th September, 2007

O.N. 48.— Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (3) of the Table below at the General Election to the Tamil Nadu Legislative Assembly, 2006 held from the Constituency specified in the column (2) against his/her name has failed to lodge an account of his/her election expenses as mentioned in column (4) of the said Table, as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules, made thereunder;

And, whereas the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failures even after due notice to each of them and the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure :

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (3) of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being, a member of either House of the Parliament or Legislative assembly or Legislative Council of a State for a period of 3 years from the date of this Order.

TABLE

Sl. No.	No. and Name of Assembly Constituency	Name and Address of the contesting Candidate	Reason for disqualification
1	2	3	4
1.	56-Vanur (SC)	Shri Govindasamy, A. No. 68/5, Perumal Koil Street, Gidangal-2 Tindivanam-604002	Account not lodged at all
2.	-do-	Shri Paramasivam, D. No. Thalayari Street, (Iruvan Street) Veedur Village, And Post. Tindivanam Taluk, Pincode-605652.	-do-
3.	-do-	Shri Jayapal, M. No. 2, Anna Street, Konamangalam Village, Thazhuthali Post, Tindivanam Taluk, Pincode-604304.	-do-

1	2	3	4
4.	79-Harur (S.C.)	Shri Ambethkar P. S/o. N. R. Perumal Mobiripatti Village, Harur Talik, Dharmapuri District.	Account not lodged at all
5.	-do-	Shri Kalaimani V. S/o. Vediappan, Door No. 13, Ward No. 16, Ambethkar Nagar, Harur Town, Harur Talik, Dharmapuri District.	-do-
6.	-do-	Shri Thirumal, M. S/o Mariappan, M.G.R. Nagar, Kumarasamypet P.O., Dharmapuri Taluk, Dharmapuri Distt.	-do-
7.	136-Sedapatti	Shri Santhakumar, K. S/o Karuppiiah, Mahakavi Bharathi Illam, Thadayampatti, Peraiyur Taluk, Madurai District.	-do-
8.	-do-	Shri Ramadurai, P. S/o Pinna Thevar, 8-1-51, Subramania Siva Street, Palanichettipatti, Theni Taluk, Theni District.	-do-
9.	-do-	Shri Sundaramoorthi, V. S/o Vellaichamy, Nadu Theru, 2nd Ward, S. Keelapatti, Santaiyur (P.O.) Peraiyur Taluk, Madurai District.	-do-
10.	-do-	Shri Vasimalai, P. S/o Petchimuthu, V.O.C. Nagar, Peraiyur, Madurai District.	-do-
11.	137-Tirumangalam	Shri Gurusamy, P. S/o Periyamaruthan 123, Veppankulam, Maruthangudi P.O., Tirumangalam Taluk, Madurai District.	-do-
12.	-do-	Shri Muthuvel, K. S/o Krishnan, 35A, O. Alankulam, Valayapatti P.O., Madurai South Taluk, Madurai District.	-do-
13.	151-Aravakurichi	Shri Dhayalan R.M. S/o Mariyappan, Rajapuram and (P.O.) Aravakurichi Taluk	-do-
14.	156-Thottiyam	Smt. Saraswathi, G. W/o Ganesan, 5/74, Pallar St., Kolakudi Post Thottiyam Taluk, Trichy District.	-do-

1	2	3	4
15.	156-Thottiyam	Shri Natesan, N. S/o Nallukutti, 6-Mela Street, Mangalam Village, Musiri Taluk.	Account not lodged at all
16.	-do-	Smt. Usha, C. W/o Selvapathy, 110-Annanagar Colony, Thottiyam Post and Taluk.	-do-
17.	-do-	Shri Krishnan, R. S/o M. Ramasamy, 1/56, Ambalakkaran St. Karugudy, Musiri Taluk, Trichy District.	-do-
18.	-do-	Shri Senthikumar P. S/o Periyasamy, 4/386, Mariamman Koil Street, Ariyanampettai, Alagarai Village, Thottiyam Taluk, Trichy District.	-do-
19.	158-Musiri	Shri Nagalingam, Aru. C. S/o Chithiran, 1/288, Bharathi Nagar, Poolangudi Colony, Trichy-25	-do-
20.	-do-	Shri Ilangovalal, B. S/o Balamuthu, 14/D, Thiruvalluvar Street, Sirugampur, Mannachanallur Taluk.	-do-
21.	-do-	Shri Ganesan, S., S/o Seventhilingam, 119, East Street, Murugapettai, Mutharasanallur Post, Sriengam Taluk.	-do-
22.	159-Lalgudi	Shri Krishnamoorthy V. S/o Vadagiri, Uppiliyapuram Post, Thuraiyur Taluk, Trichy District.	-do-
23.	-do-	Shri Nataraj, M. S/o Muthukaruppan Madaliyar Street, Koandakurichi Pullambadi Via, Lalgudi Taluk.	-do-
24.	-do-	Shri Rajaram, N. S/o Natarajan, Mela Street, South Mahilambadi, Lalgudi Taluk.	-do-
25.	165-Srirangam	Mahalakshmi, Tmt. M. W/o J. Muthukrishnan, 47/1, Singam Illam, Nallakeni Street, Edamalaipattipudur, Tiruchirappalli-620012	-do-

1	2	3	4
26. 165-Srirangam	Shri Dalith Ilayamaran @ Palanivel, S/o Muthu, 68A, Indra Nagar, Edamalaipattipudur, Tiruchirappalli-620012		Account not lodged at all
27. 170-Poompuhar	Smt. Saraswathy, M. W/o Madhiyazhagan, 7/148, Padasalai Theru, Periyakoothur, Thirukkalacherry Post, Tharangambadi Taluk, Nagapattinam District.		-do-
28. -do-	Shri Chakravarthy, K. S/o Kaliyamoorthy, Main Road, Vasishtacherry, Velampudhukudy Post, Tharangambadi Taluk, Nagapattinam District.		-do-
29. -do-	Shri Venkatesan, Mari S/o Marimuthu, Ayyanarkoil Theru, Ilayamadhukoodam, Radhanallur, Sirkali Taluk, Nagapattinam District.		-do-
30. 176-Vedaranyam	Shri Uthayakumar, M. Rajankattali, Annapettai & Post, Vedaranyam Taluk, Nagapattinam District.		-do-
31. -do-	Shri Veeravinayagam, B. 6 Keela Theru, Vedaranyam & Taluk, Nagapattinam District.		-do-
32. -do-	Shri Srinivasan, M. Kalani Theru, Thalanayar- Ist Sethi, Vedaranyam Taluk, Nagapattinam District-614712		-do-
33. -do-	Shri Vedarethinam, G. Nelivillakku and Post, Vedaranyam Taluk, Nagapattinam District.		-do-
34. 195-Karaikudi	Shri Raman, N.K. S/o Nagappan, New Door No. 7/Old No. 5, 9th Street, Subramaniyapuram, Karaikudi.		-do-
35. 197-Ilayangudi	Shri Saravanan, M. Sengarnadai C. K. Mangalam Post, Thiruvadanai Taluk, Ramanathapuram District.		-do-
36. -do-	Shri Ayyasamy, S. 5/73, Kuttupuli, Sengudi Post, R.S. Mangalam Via Thiruvadanai Taluk, Ramanathapuram District.		-do-

1	2	3	4
37. 197-Ilayangudi	Shri Baskaran, R. Sathani Village Ilayangudi Taluk, Sivaganga District.		Account not lodged at all
38. -do-	Shri Murugesan, R. Veladimadai, Melanuttur Post, Ilayangudi Taluk, Sivaganga District.		-do-
39. 198-Sivaganga	Dhanalakshmi Tmt. V. W/o Venkatraman, 16B Thalaivar, Chinnasamy Street, Sivaganga.		-do-
40. 199-Manamdurai (S.C.)	Shri Kamalakannan, K. E-12/11, Housing Board, Sivaganga.		-do-
41. 227-Thoothukudi	Shri Sivamurugan, T. 2/26, South Street, Thandapathu Post, Tirchendur Taluk 628208		-do-
42. -do-	Smt. Jayamal Arputharaj, B. 68-Mela Street, Kulaiankarisal, Thoothukudi Taluk.		-do-

[No. 76/TN-LA/2007]

By Order,

TAPAS KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2007

आ. अ. 49.—जबकि, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट उत्तराखण्ड राज्य से विधान सभा के साधारण निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उनके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाये गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और, जबकि, उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहिता घोषित करता है।

सारणी

क्रम सं.	निर्वाचन क्षेत्र का विवरण	निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता	निरहिता का कारण
1	2	3	4	5
1.	उत्तराखण्ड राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2007	2-गंगोत्री	श्री दुर्गेश मिश्रा, 8-चन्द्रेश्वर नगर, चन्द्रभागा, ऋषिकेश, जिला देहरादून।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2.	-वही-	4-प्रतापनगर	श्री सब्बल सिंह ग्रा. कफलो, पट्टी, धरमण्डल।	-वही-
3.	-वही-	10-चकराता (अ.ज.जा.)	श्री भीम दत्त, ग्रा. पणायासा, उत्तराखण्ड।	-वही-

1	2	3	4	5
4.	उत्तराखण्ड राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2007	11-विकासनगर	श्री कादिर हुसैन, जीवनगढ़, विकासनगर, उत्तराखण्ड।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
5.	-वही-	-वही-	श्री रघुनाथ सिंह, अस्पताल रोड, विकासनगर, उत्तराखण्ड।	-वही-
6.	-वही-	-वही-	श्री इनाम बाबू, जीवनगढ़, विकासनगर, उत्तराखण्ड।	-वही-
7.	-वही-	-वही-	श्री गिरवर सिंह, ग्रा. छरबा, विकासनगर, उत्तराखण्ड।	-वही-
8.	-वही-	-वही-	श्री ठाकुर दास, डाक्टरगंज, विकासनगर, उत्तराखण्ड।	-वही-
9.	-वही-	12-सहसपुर (अ.जा.)	श्री सुखपाल कोली, चोईला, मोहब्बेवाला, देहरादून।	-वही-
10.	-वही-	-वही-	श्री छोटे ज्ञाल, आरकेडियाग्रान्ट, पुरानी लाईन, देहरादून।	-वही-
11.	-वही-	-वही-	श्री चरण पाल, ग्राम व पो. झांझरा, देहरादून।	-वही-
12.	-वही-	-वही-	श्री राम कला, 222ए, बड़ोवाला, आशिक वसन्त विहार, देहरादून।	-वही-
13.	-वही-	-वही-	श्री प्रेम कुमार, ग्रा. व पो. माण्डूवाला, काँसवाली कोठरी, देहरादून।	निर्वाचन व्ययों का कोई विधि द्वारा अपेक्षित राशि से दाखिल करने में असफल रहे।
14.	-वही-	13-लक्ष्मण चौक	श्री मुनीस अतहर, 9, शिमलारोड, माजरा, देहरादून।	-वही-
15.	-वही-	-वही-	श्री वेद किशोर जुगरान, 96-48-6 सिंघल मण्डी भंडारी बाग, देहरादून।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
16.	-वही-	-वही-	श्री सलीम खान, सी.-9 म. नं. 284, त्रिभूति विहार टर्नर रोड, देहरादून।	-वही-
17.	-वही-	-वही-	श्री इमरान अहमद, राजनगर निकट ट्रांसपोर्ट नगर, सेवलाखुर्द, पो. ओ. मोहब्बेवाला, देहरादून।	-वही-

1	2	3	4	5
18.	उत्तराखण्ड राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2007	13 लक्ष्मण चौक	विनय सक्सेना, 11/2 जाखन, राजपुर रोड, देहरादून ।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे ।
19.	-वही-	-वही-	श्र सुरेश सिंह राणा, 31/34, नेताजी स्ट्रीट, देहरादून ।	-वही-
20.	-वही-	14-देहरादून	श्री रितेश सचदेवा, 3 शान्ति विहार, गोविन्दगढ़ देहरादून ।	-वही-
21.	-वही-	-वही-	श्री शिव कुमार अग्रवाल, कौलागढ़, देहरादून ।	-वही-
22.	-वही-	-वही-	श्री अमित, 94, तिलक रोड, देहरादून ।	-वही-
23.	-वही-	-वही-	श्री धर्मेन्द्र टीट्ट, 159, राजीव गाँधी कॉलोनी, कैन्ट देहरादून ।	-वही-
24.	-वही-	-वही-	श्री पंकज कुकरेती, 15ए, कचहरी रोड, देहरादून ।	-वही-
25.	-वही-	-वही-	श्री श्याम सुन्दर यादव, 265, दून विहार, भगीरथीपुरम, देहरादून ।	-वही-
26.	-वही-	15-राजपुर	श्री अजय सूद, 212/338, ओल्ड डालनवाला, देहरादून ।	-वही-
27.	-वही-	-वही-	श्री पंकज प्रताप मलिक, मोहब्बेवाला, सहारनपुर रोड, देहरादून ।	-वही-
28.	-वही-	-वही-	श्री के. एस. बंगारी, 105/4ए, विजय कॉलोनी, हाथीबड़कला, देहरादून ।	-वही-
29.	-वही-	-वही-	श्री वेदपाल, 60, बापूनगर, विवेक विहार, 11 जाखन, देहरादून ।	-वही-
30.	-वही-	-वही-	श्री सोहन बौर सिंह, धीरवान, रिस्मना नगर, देहरादून ।	निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने की असफल रहे।

1	2	3	4	5
31.	उत्तराखण्ड राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2007	16-मसूरी	राकेश्वरी, न्यू मिट्टी बेहड़ी, देहरादून।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
32.	-वही-	-वही-	श्री हर्षबीर सिंह, विंग नं. 6/7/8, प्रेमनगर, देहरादून।	-वही-
33.	-वही-	17-ऋषिकेश	श्री विजयपाल सिंह रावत, 147, खदरी खड़क माफ, ऋषिकेश।	-वही-
34.	-वही-	-वही-	श्री प्रमोद कुमार 167, चन्द्रेश्वर नगर, ऋषिकेश।	-वही-
35.	-वही-	-वही-	श्री लाल कुंज शाह, 309/20 चन्द्रेश्वर नगर, ऋषिकेश।	-वही-
36.	-वही-	-वही-	श्री शान्ति प्रसाद, ग्रा. खदरी खड़क माफ, पो. सत्य नारायण मन्दिर, देहरादून।	-वही-
37.	-वही-	-वही-	श्री संजीव गुप्ता, मनोहर आश्रम, लाजपत राय मार्ग, ऋषिकेश।	-वही-
38.	-वही-	18-डोईवाला	श्री देवेन्द्र सिंह, ग्रा. बालावाला, देहरादून।	-वही-
39.	-वही-	-वही-	श्री अनिल डोभाल, 93, मोथरोंवाला थाना क्लेमनटाउन, देहरादून।	-वही-
40.	-वही-	-वही-	श्री रणबहादुर नेपाली, ग्रा. लच्छीवाला, पो. आ. मिस्सरवाला, डोईवाला, देहरादून।	-वही-
41.	-वही-	-वही-	श्री राजेन्द्र, 47, सुमन नगर, धर्मपुर, देहरादून।	-वही-
42.	-वही-	-वही-	श्री सुरेन्द्र, नाथूराम प्लाट, मिल रोड, देहरादून।	-वही-
43.	-वही-	-वही-	श्री जमशेद उस्मानी, 175-सेवलाकलाँ, माजरा, देहरादून।	-वही-

1	2	3	4	5
44.	उत्तराखण्ड राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2007	18-डोईवाला	श्री अजय कपिल, 623, दीपनगर, अजबपुर, देहरादून।	निर्वाचनों व्यर्थों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
45.	-वही-	20-रुड़की	श्री संजय कुमार, 618 रामनगर, रुड़की।	-वही-
46.	-वही-	-वही-	श्री अशोक, ग्रा. व. पो. ठंडेरा, तह. रुड़की।	निर्वाचन व्यर्थों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहे।
47.	-वही-	21-इकबालपुर	श्री देवेन्द्र 348/33, अम्बर तालाब, रुड़की।	निर्वाचनों व्यर्थों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
48.	-वही-	-वही-	श्री सुल्हर सिंह, 129/3, चावमंडी, रुड़की।	-वही-
49.	-वही-	-वही-	श्री अमर सिंह, अकबरपुर, फाजिलपुर, उत्तराखण्ड।	-वही-
50.	-वही-	22-मंगलौर	श्री मनोज कुमार तोमर, ई-372, सुधाष नगर रुड़की, तह. रुड़की, जिला हरिद्वार।	-वही-
51.	-वही-	25-बहादुराबाद	श्री रियासत अली, ग्रा. व. पो. अलीपुर, इब्राहिमपुर, हरिद्वार।	-वही-
52.	-वही-	26-हरिद्वार	गौसिया भारती, मो. घोंसियान, ज्वालापुर, हरिद्वार।	-वही-
53.	-वही-	-वही-	श्री शहराज अली, मो. कैथंवाड़ा, ज्वालापुर, हरिद्वार।	-वही-
54.	-वही-	-वही-	श्री विनोद कुमार काम्बोज, डी-13, आशीवाद, इन्कलेव, बसन्त बिहार, देहरादून।	-वही-
55.	-वही-	27-लालढांग	श्री रमणीक सिंह, रघुवीर भवन, 288, देवपुरा, हरिद्वार।	-वही-
56.	-वही-	-वही-	श्री कज़ीर अली, नालोकासा, तपड़ोकासी श्यामपुर, हरिद्वार।	-वही-
57.	-वही-	-वही-	श्री रमण लाल, 38, फुसकासा, बिरसंगपुर, हरिद्वार।	-वही-
58.	-वही-	28-यमकेश्वर	श्री अरुण शिवारी, मालवीय उद्यान, कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल।	-वही-

1	2	3	4	5
59.	उत्तराखण्ड राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2007	28-यमकेश्वर	श्री मदन सिंह बुटोला रावत, ग्रा. व. पो. माला, पट्टी तल्ला ढांगू, जिला पौड़ी गढ़वाल ।	निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहे ।
60.	-वही-	29-कोटद्वार	श्री ओम प्रकाश, ग्रा. सिमलचौड़, पो. पदमपुर, कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल ।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे ।
61.	-वही-	-वही-	श्री विपिन कोटनाला, ग्रा. अपर कालाबड़ कोटद्वार ढांगू, जिला पौड़ी गढ़वाल ।	निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहे ।
62.	-वही-	31-बीरोंखाल	श्री भूषसिंह, ग्रा. सुन्ना, पो. सिमारखाल, तह. चौबट्टाखाल, जिला पौड़ी गढ़वाल ।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे ।
63.	-वही-	33-पौड़ी	श्री युवराज सिंह, ग्रा. मानपुर, पो. कलालघाटी, तह. कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल ।	-वही-
64.	-वही-	34-श्रीनगर (अ.जा.)	श्री महेन्द्र कुमार, गणेश बाजार, श्रीनगर (समीप रामलीला मैदान), पौड़ी गढ़वाल ।	निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहे ।
65.	-वही-	35-थलीसैण	श्री चतरपाल सिंह ग्रा. सीतापुर, पो. ज्वालापुर, हरिद्वार ।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे ।
66.	-वही-	37-केदारनाथ	श्री राजबीर सिंह, ग्रा. व. पो. मनसूना, जिला रुद्रप्रयाग ।	निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहे ।
67.	-वही-	40-कर्णप्रयाग	कुंवर सिंह नेगी, ग्रा. सौनियाणा, पो. व तह. गैरसैण, जिला चमोली ।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे ।
68.	-वही-	52-मुक्तेश्वर (अ.जा.)	श्री राम लाल आर्य, ग्रा. गहना, पो. सरगाखेत, तह. व जिला नैनीताल ।	-वही-
69.	-वही-	-वही-	श्री हरीश कुमार ग्रा. मैहलचौरा, पो. महकालेश्वर, तह. द्वाराहाट, जिला अल्मोड़ा ।	-वही-

1	2	3	4	5
70.	उत्तराखण्ड राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2007	53-धारी	श्री चन्द्रशेखर, ग्रा. बमेटा बंगर खीमा, पो. हल्द्वी, जिला नैनीताल ।	निर्वाचन व्यर्थों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे ।
71.	-वही-	-वही-	मो. इसरायल, आवास विकास कालोनी, नाला पार, हल्द्वानी, जिला नैनीताल ।	-वही-
72.	-वही-	54-हल्द्वानी	श्री मुन्ना लाल साहू, मोहम्मदी चौक, इन्दिरा नगर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल ।	-वही-
73.	-वही-	55-नैनीताल	श्री जमीर अहमद, पापुलर कम्पाउण्ड, मार्शल काटेज, नैनीताल ।	-वही-
74.	-वही-	-वही-	श्री दीपक शाह, आदर्श नगर तल्ली, बमौरी, हल्द्वानी ।	-वही-
75.	-वही-	56-रामनगर	श्री किशोरी लाल, ग्रा. मालधन चौड़-2, रामनगर।	-वही-
76.	-वही-	-वही-	रमा देवी, ग्रा. मालधन चौड़-2, चन्द्र नगर, रामनगर ।	-वही-
77.	-वही-	57-जसेपुर	श्री चन्द्रपाल सिंह ग्रा. धर्मपुर, पो. धर्मपुर, उत्तराखण्ड।	-वही-
78.	-वही-	-वही-	श्री विनोद कुमार जैन, नई बस्ती, निकट पावर हाउस, जस पूर ।	-वही-
79.	-वही-	-वही-	श्री सुरेन्द्र सिंह ग्रा. वीरपुर, पो. जसपुर, उत्तराखण्ड।	-वही-
80.	-वही-	58-काशीपुर	वीना किशोर, मो. सुभाष नगर (न्यू आ.वि.), उत्तराखण्ड।	-वही-
81.	-वही-	-वही-	श्री गुरनाम सिंह ग्रा. पैगा (आशिक) काशीपुर ।	-वही-
82.	-वही-	60-पतनगर गदरपुर	श्री विवेकानन्द, ग्रा. गंगापुर पटिया, पो. प्रतापपुर, तह. किच्छा, उधमसिंह नगर ।	-वही-

1	2	3	4	5
83.	उत्तराखण्ड राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2007	61-रुद्रपुर-किच्छा	श्री खलीक बेग, वार्ड नं. 9, सीर गोटिया, रुद्रपुर।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
84.	-वही-	-वही-	विमलेश, ट्रांजिट कैम्प, वार्ड नं. 1, रुद्रपुर।	-वही-
85.	-वही-	65-लोहाघाट	श्री सुरेश तिवारी, ग्रा. इडाकोट, पो. भुम्लाई, जिला चम्पावत।	निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहे।
86.	-वही-	68-डीडीहाट	श्री योगेश, ग्रा. एवं पो. बेरीनाग, तह. बेरीनाग।	-वही-

[सं. 76/उत्तराखण्ड-विधान सभा/2007]

आदेश से,

बर्नार्ड जॉन, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th September, 2007

O.N. 49.— Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General Elections to the Legislative Assembly in the State of Uttarakhand specified in column (2) held from the Constituency specified in the column (3) against his name has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules, made thereunder as shown in column (5) of the said Table;

And, whereas the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notices; and/or the Election Commission after considering the representation made by them, if any, is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of 3 years from the date of this Order :—

TABLE

Sl. No.	Particular of Election	Sl.No. and Name of Constituency	Name and Address of Contesting Candidates	Reason of Disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttarakhand, 2007.	2-Gangotri	Sh. Durgesh Mishra, 8-Chandreshwar Nagar, Chandarbhaga, Rishikesh, Distt. Dehradun	Failed to lodge any account of his/her election expenses
2.	-do-	4-Pratapnagar	Sh. Sabbal Singh, Vill. Kaflog Patti, Dharmandal	-do-
3.	-do-	10-Chakrata (ST)	Sh Bheem Dutt, Village Panayasa, Uttarakhand	-do-

1	2	3	4	5
4.	General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttarakhand, 2007.	11-Vikasnagar	Sh. Kadir Hussain, Jeewangarh, Vikasnagar, Uttarakhand	Failed to lodge any account of his/her election expenses
5.	-do-	-do-	Sh. Raghunath Singh, Hospital Road, Vikasnagar, Uttarakhand	-do-
6.	-do-	-do-	Sh. Inambabu, Jeewangarh, Vikasnagar, Uttarakhand	-do-
7.	-do-	-do-	Sh. Girver Singh, Vill. Chharba, Vikasnagar, Uttarakhand	-do-
8.	-do-	-do-	Sh. Thakur Dass, Doctor Ganj, Vikasnagar, Uttarakhand.	-do-
9.	-do-	12-Sahaspur (SC)	Sh. Sukhpal Koli, Choila, Mohbbewala, Dehradun	-do-
10.	-do-	-do-	Sh. Chhote Lal, Arkediagarnt, Purani Line, Dehradun	-do-
11.	-do-	-do-	Sh. Charan Pal, Village and Post Jhanjhar, Dehradun	-do-
12.	-do-	-do-	Sh. Ram Kala, 222A, Barowala, Ansik, Vasant Vihar, Dehradun	-do-
13.	-do-	-do-	Sh. Sh. Prem Kumar, Kans Wali Kothri, Vill. and P.O. Manduwala, Dehradun	Failed to lodge the account of election expenses in the manner required by law.
14.	-do-	13-Laxman Chowk	Sh. Munis Atahar, 9, Shimla Road, Majra Dehradun	-do-
15.	-do-	-do-	Sh. Ved Kishor Jugran, 96-48-6, Singhal Mandi, Bhandaribag, Dehradun.	Failed to lodge any account of his/her election expenses
16.	-do-	-do-	Sh. Salim Khan, C-9, H.No. 284, Tribhuti Vihar, Turner Road, Dehradun	-do-
17.	-do-	-do-	Sh. Imran Ahamad, Rajnagar Near transport Nagar, Sewlakhurd, P.O. Mohebbuwala, Dehradun	-do-

1	2	3	4	5
18.	General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttarakhand, 2007.	13-Laxman Chowk	Sh. Vinay Saxena, 11/2 Jakhan, Rajpur Road, Dehradun	Failed to lodge any account of his/her election expenses
19.	-do-	-do-	Sh. Suresh Singh Rana, 31/34, Netaji Street, Dehradun	-do-
20.	-do-	14-Dehradun	Sh. Ritesh Sachdeva, 3, Shanti Vihar, Govindgarh, Dehradun	-do-
21.	-do-	-do-	Sh. Shiv Kumar Agarwal, Kaulagarh, Dehradun	-do-
22.	-do-	-do-	Sh. Amit, 94, Tilak Road, Dehradun	-do-
23.	-do-	-do-	Sh. Dharmendra Titu, 159, Rajeev Gandhi Colony, Cantt. Dehradun	-do-
24.	-do-	-do-	Sh. Pankaj Kukreti, 15A Kutchery Road, Dehradun	-do-
25.	-do-	-do-	Sh. Shyam Sundar Yadav, 265 Doon Vihar, Bagrathi Puram, Dehradun	-do-
26.	-do-	15-Rajpur	Sh. Ajay Sood, 212/328 Old Dalanwala, Dehradun.	-do-
27.	-do-	-do-	Sh. Pankaj Pratap Malik, Mohabbewala, Saharanpur, Road, Dehradun.	-do-
28.	-do-	-do-	Sh. K. S. Bangari, 105/4A Vijay Colony, Hathi Barkala, Dehradun.	-do-
29.	-do-	-do-	Sh. Vedpal, 60, Bapu Nagar, Vivek Vihar, 11 Jakhan, Dehradun.	-do-
30.	-do-	-do-	Sh. Sohan Ber Singh Dhirvan, Rispana Nagar, Dehradun.	Failed to lodge the account of election expenses in the manner required by law.
31.	-do-	16-Mussoorie	Rakeshewari, New Mitthi Behri, Dehradun.	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
32.	-do-	-do-	Sh. Harshbir Singh, Wing No. 6/7/8, Premnagar, Dehradun.	-do-
33.	-do-	17-Rishikesh	Sh. Vijaypal Singh Rawat, 147, Khadri Kharak MAF, Rishikesh.	-do-
34.	-do-	-do-	Sh. Pramod Kumar, 167, Chandreshwar Nagar, Rishikesh.	-do-

1	2	3	4	5
35.	General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttarakhand, 2007.	17-Rishikesh	Sh. Lal Kunj Shah, 309/20, Chandreswar Nagar, Rishikesh.	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
36.	-do-	-do-	Sh. Shanti Prasad, Vill. Khadri Kharak MAF, P.O. Satyanarayan Mandir, Dehradun.	-do-
37.	-do-	-do-	Sh. Sanjeev Gupta, Manohar Ashram, Lajpat Rai Marg, Rishikesh.	-do-
38.	-do-	18-Doiwala	Sh. Devendra Singh, Village-Balawala, Dehradun.	-do-
39.	-do-	-do-	Sh. Anil Dobhal, 93, Mothrowala, Thana Clementwon, Dehradun.	-do-
40.	-do-	-do-	Sh. Ranbahadur Nepali, Vill. Lacchiwala, P.O. Missarwala, Doiwala, Dehradun.	-do-
41.	-do-	-do-	Sh. Rajendra, 47, Suman Nagar, Dharampur, Dehradun.	-do-
42.	-do-	-do-	Sh. Surendra, Nathuram Plot, Mill Road, Dehradun.	-do-
43.	-do-	-do-	Sh. Jamshed Usmani, 175, Sewlakalan, Majra, Dehradun.	-do-
44.	-do-	-do-	Sh. Ajay Kapil, 623, Deepnagar, Ajabpur, Dehradun.	-do-
45.	-do-	20-Roorkee	Sh. Sanjay Kumar, 618, Ramnagar, Roorkee Haridwar.	-do-
46.	-do-	-do-	Sh. Ashok, Vill. and Post Dhandera, Tehsil Roorkee.	Failed to lodge the account of of election expenses in the manner required by law.
47.	-do-	21-Iqbalpur	Sh. Devendra, 348/33, Amber Talab, Roorkee.	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
48.	-do-	-do-	Sh. Sulhar Singh, 129/3, Chav Mandi, Roorkee	-do-
49.	-do-	-do-	Sh. Amar Singh, Vill. Akabarpur Fazilpur, Uttarakhand.	-do-
50.	-do-	22-Manglor	Sh. Manoj Kumar Tomar, E/372, Subhash Nagar, Roorkee, Tehsil Roorkee, Distt. Haridwar.	-do-

1	2	3	4	5
51.	General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttarakhand, 2007.	25-Bahadrapad	Sh. Riyasat Ali, Vill. & Post Alipur, Ebrahimpur, Haridwar.	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
52.	-do-	26-Haridwar	Gausiya Bharati, Mohalla-Ghosiyan, Jawalapur, Haridwar.	-do-
53.	-do-	-do-	Sh. Shahraj Ali, Mohalla-Kaithwara Jwalapur, Haridwar.	-do-
54.	-do-	-do-	Sh. Vinod Kumar Kamboj, D-13, Ashirwad Enclave, Basant Vihar, Dehradun.	-do-
55.	-do-	27-Laldhang	Sh. Ramnik Singh, Raghubeer Bhawan, 288, Devpura, Haridwar.	-do-
56.	-do-	-do-	Sh. Wazir Ali, Nalowala Tapdowali, Shyampur, Haridwar.	-do-
57.	-do-	-do-	Sh. Shyam Lal, 38, Purwala Virsangpur, Haridwar.	-do-
58.	-do-	28-Yamkeshwar	Sh. Arun Tiwari, Malvia Udhyan, Kotdwar, Distt. Pauri Garhwal.	-do-
59.	-do-	-do-	Sh. Madan Singh Butola Rawat, Village and Post Malla, Patti, Talla Dhangu, District Pauri Garhwal.	Failed to lodge the account of election expenses in the manner required by law.
60.	-do-	29-Kotdwar	Sh. Om Prakash, Village Simal Chaur, Post Office Padampur, Kotdwar, District Pauri Garhwal.	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
61.	-do-	-do-	Sh. Vipin Kotnala, Upper Kalabarh, Kotdwar, Dhangu, District Pauri Garhwal.	Failed to lodge the account of election expenses in the manner required by law.
62.	-do-	31-Bironkhal	Sh. Bhoop Singh, Village Sunna, Post Simarkhal, Tehsil Chaubattakhal, District Pauri Garhwal.	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
63.	-do-	33-Pauri	Sh. Yuvraj Singh, Village-Manpur, P.O. Kalalghati, Tehsil-Kotdwar, District Pauri Garhwal.	-do-
64.	-do-	34-Srinagar (SC)	Sh. Mahendra Kumar, Ganesh Bazar Srinagar, Near Ramlila Maidan, Pauri Garhwal.	Failed to lodge the account of election expenses in the manner required by law.
65.	-do-	35-Thalisain	Sh. Chatarpal Singh, Village/Sitapur, Post Jwalapur, Haridwar.	Failed to lodge any account of his/her election expenses.

1	2	3	4	5
66.	General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttarakhand, 2007.	37-Kedarnath	Sh. Rajbeer Singh, Village and P.O. Mansoona, Distt. Rudraprayag.	Failed to lodge the account of election expenses in the manner required by law.
67.	-do-	40-Karanprayag	Kunwar Singh Negi, Vill. Soniyana, P.O. and Tahsil Gairsain, Distt. Chamoli.	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
68.	-do-	52-Mukteshwar (SC)	Sh. Ram Lal Arya, Gram-Gahana, P.O. Sargakhet, Teh. and Distt.- Nainital.	-do-
69.	-do-	-do-	Sh. Harish Kumar, P.O. Gram-Mehal Choura, Mahakaleshwer, Teh.-Dwarahat, Distt.-Almora.	-do-
70.	-do-	53-Dhari	Sh. Chandra Shekhar, Vill. Barneta Bangar Kheema, P.O. Halduchaur, Distt. Nainital.	-do-
71.	-do-	-do-	Mohd. Israel, Avash Vikash Colony, Nalapar, Haldwani, Distt. Nainital.	-do-
72.	-do-	54-Haldwani	Sh. Munna Lal Sahu, Mohanmadi Chowk, Indira Nagar, Haldwani, Nainital.	-do-
73.	-do-	55-Nainital	Sh. Zameer Ahmad, Popular Compound, Marshal Cottage, Nainital.	-do-
74.	-do-	-do-	Sh. Deepak Shah, Adarsh Nagar Talli, Bamori, Haldwani.	-do-
75.	-do-	56-Ramnagar	Sh. Kishori Lal, Vill. Maldhan Chor-2, Ramnagar.	-do-
76.	-do-	-do-	Rama Devi, Maldhanchor-2, Chandra Nagar, Ramnagar.	-do-
77.	-do-	57-Jasipur	Sh. Chandrapal Singh, Vill. Dharampur, Post Dharampur, Uttarakhand.	-do-
78.	-do-	-do-	Sh. Vinod Kumar Jais, Naio Basti, Near Power House, Jasipur.	-do-
79.	-do-	-do-	Sh. Suresh Singh, Vill. Vanspur, Post Jasipur, Uttarakhand.	-do-
80.	-do-	58-Kashipur	Veena Kishore, Moh. Bhatia Nagar, (New Arun Vikas), Uttarakhand.	-do-
81.	-do-	-do-	Sh. Gurnam Singh, Vill. Paiga (Ansik), Kashipur.	-do-

1	2	3	4	5
82.	General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttarakhand, 2007.	60-Pantnagar-Gadarpur	Sh. Vivekanand, Vill. Ganga Pur Patiya, P.O. Pratap Pur, Th-Kichha, U.S. Nagar..	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
83.	-do-	61-Rudrapur-Kichha	Sh. Khalik Beg, Ward No.-9, Sheer Gotiya, Rudrapur.	-do-
84.	-do-	-do-	Sh. Vimlesh, Transit Camp. Ward No.-1, Rudrapur	-do-
85.	-do-	65-Lohaghat	Sh. Suresh Tewari, Vill. Irakote, P.O. Bhumlai, Distt. Champawat.	Failed to lodge the account of election expenses in the manner required by law.
86.	-do-	68-Didihat	Sh. Yogesh, Village and Post Berinag, Tahsil Berinag.	-do-

[No. 76/UKH-LA/2007]

By Order,
BERNARD JOHN, Secy.**आदेश**

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2007

आ. अ. 50.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि केरल विधान सभा के लिए उप-निर्वाचन, 2006, जो नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्रों से हुआ है, स्तम्भ (3) में उसके नाम के सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्विनिर्दिष्ट बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और यतः उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा नीचे की सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

सारणी

क्रम सं.	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की क्रम सं. और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरहता का कारण
1	2	3	4
1.	28-तिरुवम्बाडि	उम्मेर मास्टर, थलथेडि हाउस, कवनूर पोस्ट, एरिया कोड, केरल	कोई भी लेखा दाखिल नहीं किया।
2.	-वही-	बी. पी. उम्मेर, थेक्केदुरूपथ, परम्बा हाउस, पुथियारा, केरल	-वही-

[सं. 76/केरल-विधान सभा/28/2007(उप)]

आदेश से,
तपस कुमार, सचिव**ORDER**

New Delhi, the 7th September, 2007

O.N. 50.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (3) of the Table below at the Bye Election to the Kerala Legislative Assembly, 2006 held from the Constituency specified in the column (2) against his/her name has failed to lodge an account of his/her election expenses as mentioned in column (4) of the said Table, as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules, made thereunder;

And, whereas the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failures even after due notice to each of them and the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure ;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (3) of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being, a member of either House of the Parliament or Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of 3 years from the date of this Order.

TABLE

Sl. No.	No. and Name of Assembly Constituency	Name and Address of the contesting candidate	Reason for disqualification
1	2	3	4
1.	28-Thiruvambady	Ummer Master Thalthodi House, Kavanoor Post, Areacode, Kerala.	Accounts not lodged at all
2.	-do-	V.P. Ummer, Thekkekurupath Parambu House, Puthiyara, Kerala	-do-

[No. 76/KL-LA/28/2007(Bye)]

By Order,

TAPAS KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2007

आ. अ. 51.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट मध्य प्रदेश विधान सभा के उप-निर्वाचन, 2006 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके नाम के सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा समय के अन्तर्गत दाखिल करने में असफल रहे हैं;

यतः उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

सारणी

क्रम सं.	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता का कारण
1	2	3	4	5
1.	मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए उप निर्वाचन, 2006	114-बुधनी	नर्मदा प्रसाद दह्य मुन्ना यादव मैन रोड, रायल मार्केट, नसरुल्लागंज, तहसील नसरुल्लागंज, जिला सीहोर (मध्य प्रदेश)	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2.	-वही-	-वही-	मो. नफीस मंसूरी, वार्ड क्रमांक 2, कस्बा, नसरुल्लागंज, जिला सीहोर (मध्य प्रदेश)	-वही-
3.	-वही-	-वही-	शोभा राम शर्मा, ग्राम हालियाखेड़ी, पोस्ट गिल्लोर, जिला सीहोर (मध्य प्रदेश)	-वही-

1	2	3	4	5
4.	मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए उप निर्वाचन, 2006	114-बुधनी	संतोष गौर, वार्ड क्रमांक 14, कस्बा-नसरुल्लागंज, जिला-सीहोर (मध्य प्रदेश)	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
5.	-वही-	-वही-	हरदेव पटेल (गोंड) ग्राम गिलेहरी, पोस्ट-वासुदेव, तहसील-नसरुल्लागंज, जिला-सीहोर, (मध्य प्रदेश)	-वही-
6.	-वही-	-वही-	राम नेता, ग्राम-छिदगांव कांछी, पोस्ट-डिमावर, तहसील-नसरुल्लागंज, जिला-सीहोर (मध्य प्रदेश)	-वही-
7.	-वही-	193-पंधाना (अ.जा.)	श्री नवनीत गजभिये, मकान नं. 140/डी, पटेल नगर, रायसेन रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश।	-वही-

[सं. 76/म.प्र.-विधान सभा/2006(उप)]

आदेश से,
बर्नाड जॉन, सचिव**ORDER**

New Delhi, the 7th September, 2007

O.N. 51.— Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidate specified in column (4) of the Table below at the Bye Election to Madhya Pradesh Legislative Assembly, 2006 as specified in column (2) held from the Constituency specified in the column (3) against his name has failed to lodge an account of his/her election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules, made thereunder as shown in column (5) of the said table;

And, whereas the said candidates have not furnished any reason or explanation for the said failures even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that they have no good reason or justification for the said failure ;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the person specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or of the Legislative Council of a State/Union Territory for a period of 3 years from the date of this Order.

TABLE

Sl. No.	Particular of Election	Sl.No. and Name of Assembly Constituency	Name and Address of Contesting Candidate	Reason for Disqualification
1	2	3	4	5
1.	Bye-Election to Madhya Pradesh Legislative Assembly, 2006	114-Budhni	Sh. Narmada Prasad Dadda Munna Yadav, Main Road, Royal Market, Nasrullaganj, Teh. Nasrullaganj, Distt. Sehore, Madhya Pradesh.	Failure to lodge any account of his/her election expenses.
2.	-do-	-do-	Mo. Nafees Mansuri, Ward No. 2, Qasba- Nasrullaganj-Distt. Sehore, Madhya Pradesh.	-do-
3.	-do-	-do-	Sh. Shobha Ram Sharma, Vill. Haliyakhedi, Post Gillor, Distt. Sehore, Madhya Pradesh.	-do-
4.	-do-	-do-	Sh. Santosh Gour, Ward No. 14, Qasba Nasrullaganj, Distt. Sehore, Madhya Pradesh.	-do-

1	2	3	4	5
5.	Bye-Election to Madhya Pradesh Legislative Assembly, 2006	114-Budhni	Sh. Hardev Patel, (Gond) Vill. Gilehari Post Vasudev, Teh. Nasrullaganj, Distt. Sehore, Madhya Pradesh	Failure to lodge any account of election expenses
6.	-do-	-do-	Sh. Ram Neta, Vill. Chhidgaon Kachhi, Post Dimavar, Teh. Nasrullaganj, Distt. Sehore, Madhya Pradesh.	-do-
7.	-do-	193-Pandhana (S.C.)	Sh. Navneet Gajbhiye H. No. 140/D-Patel Nagar, Raisen Road, Bhopal, Madhya Pradesh.	-do-

[No. 76/M.P.-LA/2006 (Bye)]

By Order,

BERNARD JOHN, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2007

आ. अ. 52.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट मध्य प्रदेश राज्य से लोक सभा के लिए हुए उप निर्वाचन, 2006-2007 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं, और

यतः उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उक्त असफलता के लिए उनके पास स्तम्भ कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10 क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हता घोषित करता है :-

सारणी

क्रम सं.	निर्वाचन का विवरण	लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता	निरर्हता का कारण
1	2	3	4	5
1.	मध्य प्रदेश से लोक सभा के लिए उप निर्वाचन, 2006	20-विदिशा	श्री गेंदालाल गांधी नगर, वार्ड नं. 12, रामलीला गेट, रायसेन, मध्य प्रदेश।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2.	मध्य प्रदेश के लोक सभा के लिए उप निर्वाचन, 2007	3-ग्वालियर	श्री राजेश कुमार अहिरवार, अशोक कॉलोनी, मुरार जिला-ग्वालियर, मध्य प्रदेश।	-वही-
3.	-वही-	-वही-	श्री दयाराम जाटव, ग्राम रामपुरा, ग्राम पंचायत जाखैली तहसील लहार, जिला-भिण्ड, मध्य प्रदेश।	-वही-

1	2	3	4	5
4.	मध्य प्रदेश से लोक सभा के लिए उप निर्वाचन, 2007	3-ग्वालियर	श्री गोपाल वर्मा (सोनी) संजय नगर, गल्ला मण्डी के पीछे, जिला-ग्वालियर, मध्य प्रदेश	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

[सं. 76/म.प्र.-लो. स./2006(उप)]

आदेश से.

बर्नार्ड जॉन, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th September, 2007

O.N. 52.— Whereas, the Election Commission is satisfied that the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the Bye Election to Lok Sabha, 2006 and 2007 from the State of Madhya Pradesh as specified in column (2) held from the Constituency specified in column (3) against his name has failed to lodge any account of election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and the rules made thereunder as shown in column (5) of the said Table;

And, whereas, the said candidates have not furnished any reason or explanation for the said failures even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being, a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of 3 years from the date of this Order.

TABLE

Sl. No.	Particular of Election	Sl.No. and Name of Parliamentary Constituency	Name and Address of Contesting Candidates	Reason for Disqualification
1	2	3	4	5
1.	Bye-Election to Lok Sabha, 2006 from Madhya Pradesh	20-Vidisha	Shri Gendalal Gandhi Nagar, Ward-12, Ramlila Gate, Raisen, Madhya Pradesh.	Failure to lodge any account of election expenses
2.	Bye-election to Lok Sabha, 2007 from Madhya Pradesh	3-Gwalior	Shri Rajesh Kumar Ahirwar Ashok Colony, Morar Distt. Gwalior, Madhya Pradesh.	-do-
3.	-do-	-do-	Shri Dayaram Jatav Gram Rampura, Gram Panchayat, Jakhailiteh Lahar, Distt. Bhind, Madhya Pradesh.	-do-
4.	-do-	-do-	Shri Gopal Verma (Soni), Sanjay Nagar, Behind Galla Mandi, Distt. Gwalior, Madhya Pradesh.	-do-

[No. 76/M.P.-HP/2006 (Bye)]

By Order.

BERNARD JOHN, Secy.